Low first flush yields may reduce quality Darjeeling tea availability

INDRONIL ROYCHOWDHURY Kolkata, June 3

DARJEELING FIRST FLUSH tea could be scarce this year, since the April or first flush production, rendering the finest quality, has declined to 0.66 million kg from 0.92 million kg during the same month last year.

This has happened due to a prolonged dry spell. Early plucking, in most cases for want of cash, has also done damage to the quality.

"In case of Darjeeling tea, it is a Catch-22 situation this season. Quality production requires due time for tea leaves to grow before plucking. But, garden owners being cash starved will pluck early, though some gardeners will have obviously waited to get a good quality," Atul Asthana, managing director and CEO, Goodricke Group, told *FF*. A good first flush crop fetches more than 35% of a year's entire revenue of Darjeeling

Production (million kg	g)	April 202	0	April 2021
Darjeeling		0.9	2	0.66
West Bengal Assam All India			18 31.5 73.44	
		13.1		
		39.14		
Exports	Jan-Feb 2020	Jan-Feb 2021	Feb 19- April 20	Feb 20- April 21
Volume (million kgs)	38	30.7	226	187
Revenue (₹ crores)	808	781	5,127	4840
Price per kg (₹)	218	254	227	260
Domestic auction (price ₹/kg)		March 202	1	April 2021
Darjeeling plains		13	5	157
Assam All India		14	185	
		13	167	

tea sales. But, this year it would not be so because of lower volume and quality, he

Darjeeling first flush plucking generally takes place between March and April though some pluck during February-end as well. Production this season has been 50% low at 0.66 million kg, compared to the same season in 2019 at 1.28 million kg (industry doesn't want com-

pare 2021 figures with 2020 as gardens were closed from December 2019 to mid-April 2020). Most gardens owners were cash constrained since last year's first flush was also hit, forcing planters to "strike a balance between cash flow

However, West Bengal's overall production during April this year was above 18 million kg, compared to a little above 9 million kg during

and quality", Asthana said.

the same month a year ago. Auction prices in both March and April were more for the Jalpaiguri and Dinajpur varieties at ₹144 a kg and 163 a kg, respectively, than that of the Darjeeling variety at ₹135 a kg and 157 a kg, respectively, for bought leaf factories.

Assam auction prices in April for bought leaf factories were also higher than March prices at an average of ₹185 a kg, against an average of ₹142 a kg. All India auction prices in April went up to an average ₹167 a kg from an average ₹137 a kg in March.

Prices for the best quality tea from across the country will be discovered through a special auction at all the auction centres this month, for which the special edition plucking (one bud two leaves) under the supervision of the Tea Board has already been done on the International Tea

The global and domestic market trends for super premium quality can be gauged

Day, a Tea Board official said.

Prices of edible oils easing: Govt PRESS TRUST OF INDIA

New Delhi, June 3

from the forthcoming auc-

tion, though hand-crafted

Darjeeling varieties may fetch

a much higher value than the

auction value since those are

privately exported, said a

member of the Darjeeling Tea

tea exports to more than 25

countries during January-

February 21, fetched ₹781

crore, against ₹808 crore

from 38 million kg exported

during the same period

during January-February 21

was higher at around ₹254 or

\$3.48 a kg, against ₹215 or

\$2.95 a kg during the same

last year to April this year was

186.64 million kg, against

226 million kg during the

same period in 2020, fetching

₹4,839. 68 crore this year

against ₹5,127 crore fetched

last year. But average per kg

price this year was higher at

₹260, against last year's ₹227.

Tea exports from February

But price realised per kg

India's 30.77 million kg of

Association.

last year.

period last year.

THE GOVERNMENT ON Thursday said prices of cooking oils, which rose abnormally in the last one year, have started to soften due to fall in global rates and lower domestic demand.

Addressing a virtual press conference, Union food secretary Sudhanshu Pandey said there is a declining trend in edible oil prices, according to the futures market rates till December.

Replying to a query whether the government was considering reduction in import duty of edible oils, Pandey said: "Prices are softening every week. There is a declining trend. Even the futures market prices are showing declining trend."

He said the demand for cooking oils has come down by 15-20% because of the pandemic.

An inter-ministerial committee reviews prices of essential items every week, he

Extract of Standalone and Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2021

ICT LIMITED

CIN: L17117PB1946PLC004565, Regd. Office: Village Chohal, Dist. Hoshiarpur (Punjab) Phone: 01882-258780, Fax: 01882-258059. Website: www.ict.co.in; E-Mail: ictsecretarial@ictltd.com

NOTICE is hereby given that the meeting of the Board of Directors will be held on Thursday, the 10th day of June, 2021, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Year Ended 31" March, 2021.

The Notice is available on the website of the Company and BSE Limited. For JCT Limited Sandeep Sachdeva

Place: Hoshiarpur Company Secretary Date: 03.06.2021

KRISHANA PHOSCHEM LIMITED

CIN:L24124RJ2004PLC019288,

Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held at 03:00 P.M. on Thursday, June 10, 2021at Registered Office at 5-O-20, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara to inter-alia consider and approve the audited financial results along with the Auditor report of the Company for the quarter ended March 31, 2021

The Notice of meeting is also available on the website a http://www.krishnaphoschem.com and on the Stock Exchange website at http://www.nseindia.com. By Order of the Board of Directors

> (Priyanka Bansal) Company Secretary



ended 31" March, 2021.

Date : June 3, 2021

Place: Bhilwara

BF INVESTMENT LIMITED

Regd. Off.: Mundhwa, Pune Cantonment, Pune-411036 CIN: L65993PN2009PLC134021 Website: www.bfilpune.com Tel: +91 20 2672 5257

Email: Secretarial@bfilpune.com NOTICE

Pursuant to Regulations 29(1)(a) read along with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled on Monday, June 14, 2021, to consider and take on record the Audited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the year

The above information is available on the Company's Website viz www.bfilpune.com and also available on websites of Stock Exchanges viz.www.nseindia.com and www.bseindia.com

For BF Investment Limited

Place: Pune

S.R.Kshirsagar, Company Secretary

Fluctuating trend: Steel exports must continue to sustain production

SUSHIM **BANERJEE** Former DG, Institute of Steel Growth and Development

DURING THE FIRST four months of 2021, the global steel industry has produced 663 MT of crude steel which is around 14% more than last year. China had rolled out 375 MT of crude steel in the period (56.5%) that exceeds last year's level by 16%.

Production growth of a critical commodity signifies a positive outlook for the metal sector. It is reported that both the US and the EU are passing through some sort of supply shortage as both these markets have restricted steel imports, the former with the help of additional duties on import of steel and aluminium (25 and 10%, respectively) under Section 232 of the US trade Act and the EU by imposing tariff-cum-quota system against traditional import sources of South

Korea, Japan and Turkey. Backed up by increased Government spending on Infrastructure (President Biden's recent announcement of \$2 trillion Federal investment) with emphasis on Buy Amerpolicies and stimulus expenditure in France and Italy, the practice of augmenting inventory in a rising market by merchant traders, service centres and OEMs fired the fuel.

As a result the daily affected rate of Covid in India, along with the daily mortality rate have shot up. Nationwide lockdowns are now replaced by localised lockdowns with allowance for the industry to continue operation with limited number of employees. This trend is indicative of a growing advanced countries on one side and subdued economies of the emerging developing countries (excluding China) pulling up its resources to fight

the menace on another side. China is presenting a curious scenario. In an effort to curb air pollution and CO2 emissions, the Chinese Government is limiting steel production. Although the production growth in the first four months of 2021 does not indicate that the industry is falling in line with the government line of thinking, the domestic demand is showing a rising trend (rising inventory accumulation by traders and construction companies, more capital spending by industrial companies and more residential construction by households). Based on March'21 production in China, the annualised level of Crude steel production for China has been assessed as 1.107 billion tonne in 2021 which is 5% more than the production level of 2020. Rising steel production by China necessitated a growing demand for raw materials, scrap, iron ore and semi-finished steel. Chinese domestic market prices of steel have been on a northbound journey.

In response to the requests made by project authorities and a few major OEMs, the Chinese government has advised the steel producers strongly to curb steel production. Two recent measures announced by Chinese government are interesting. With



rebates applicable (9-13% VAT rebates) is withdrawn which means that Chinese export offers for HRC, rebar, rounds would go up. The HRC SS 400 ex Chinese port was \$881/t in last week of April'21 and reached \$898/tIon 29th May'21 before rising to \$1018 in third week of May'21.This has helped Indian exporters to raise their offers for HRC for Vietnam. Second, the booming Chinese economy (GDP to grow

exhibiting all signs of growing steel demand as merchandise exports are up, consumer spending is on the rise and capex is substantial. The crude steel pro-

by 7.5-8.5% over 2020) is

duction by India during April'21 was 8.3 MT which is significantly higher compared to last year's level when the country was knee-dip in the Covid crisis with a total lockdown and thus this monthly growth needs to be sustained

(hereinafter referred to as "SEBI SAST Regulations, 2011")

Name of the Target Company

Independent Directors (IDC)

contract/relationship), if any.

with the Acquirers (Director,

Equity Shares owned, and other

securities of the Acquirer by IDC

as to whether the Offer, is or is

not, fair and reasonable

Summary of reasons for

Details of the Independent

Any other matter to the

recommendation

Advisors, if any

Regulations, 2011.

highlighted

contract/relationship), if anv.

by IDC Members

Equity Shares owned, and other Company.

Target Company

Details of the Offer pertaining to

3rd June, 2021

Shalimar Agencies Limited

paid up and voting capital

4) Mr. Narendra Kotti (PAC 3)

Mr. Siva Prasad Gorthy - Member

Trading in the Equity Shares/other None of the IDC members have traded in equity shares of the Acquirer.

IDC Members have reviewed

Regulations, 2011

None

line with the SEBI SAST Regulations, 2011

2) Mr. Venkata Rajani Kumar Vemuri (PAC 1)

Mr. Jata Venkata Rama Raja Sekhar - Member

IDC Member's relationship with All the members of the IDC are Directors of the Target Company. Except for being

the Target Company (Director, Directors of the Target Company, they have no other relationship with the Target

Trading in the Equity Shares/other | None of the IDC members have traded in the Equity Shares of the Target Company during

Recommendation on Open Offer, Based on the review, IDC Members believe that the Offer is fair and reasonable and in

Draft Letter of Offer dated 6th May, 2021 SEBI observation letter dated 27th May, 2021

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained or accompanying

this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information

or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI SAST

e. Letter of Offer (LOF) dated 28th May, 2021

Public Announcement (PA) dated 22nd April, 2021

Detailed Public Statement (DPS) published on 29th April, 2021

Based on review of the above documents the members of the IDC are of the view

that the offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI SAST

relationship None of the IDC members holds any contracts nor have any relationship with the

securities of the Target Company 12 months prior to the date of the Public Announcement of the Offer on 22.04.2021

3) Mr. Ravulapally Arjun Kumar (PAC 2)

Name of the Acquirer and PAC 1) IT Trailblazers Resources Private Limited (Acquirer)

Name of the Manager to the Offer | Finshore Management Services Limited

Members of the Committee of Mrs. Sowjanya Sarapu - Chairman

throughout the year and need not be once-in-a-year type. It appears that partial lockdowns in different pockets in May'21 would result in a sub-

dued demand phase in June;21,

likely to be over by Mid July'21. It depends on the intensity of 3rd and 4th wave of the Covid in influencing he domestic demand. The export efforts in steel must get strengthened in the coming months with the above changes in Chinese policies which would surely make export offers higher. It is the right time for steel exporters from India to widen the export basket, outreach many other spaces hitherto unexplored and improve necessary quality upgradation in the product range to establish an export-oriented steel industry.

(Views are personal)

Regd. Office: 19th K.M., Hapur Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Bulandshahr (U.P.) - 203408 Head Office: Plot No. 12, Local Shopping Complex, Sector B-1, Vasant Kunj, New Delhi-110070

Standalone For the Quarter Ended For the Year Ended For the Quarter Ended For the Year Ended **Particulars** Dec March March March March March 31, 2021 31, 2020 31, 2020 31, 2021 31, 2020 31, 2021 31, 2020 31, 2021 31, 2020 Reviewed Audited Audited Audited Audited Reviewed Audited Audited Audited 27.55 106.26 102.74 Total Income from Operations Including other Income 9.39 9.79 26.97 27.43 (7,704.55)(0.72)(7,562.28)(20.86)(824.53)(6.030.05)(3.087.81)(10,962.63) Net Profit/(Loss) before Tax (3.80)(799.46)Net Profit/(Loss) after Tax (0.72)(3.80)(20.86)(7,704.55)(825.69)(803.98)(6,047.50)(3,102.54)(10,992.77)(7,562.28)(1,917.69) (10,992.41) Total Comprehensive Income for the Period 951.32 121.94 (7,561.94)1,163.69 (7,704.21)126.65 (678.23)(6,047.14)(comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax) Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10 per Share) 1,051.19 1,051.19 1,051.19 1,051.19 1,051.19 1,051.19 1,051.19 1,051.19 1,051.19 1,051.19 Other Equity including NCI (43,214.18) (41,296.49) 1,198.09 Earnings Per Share (of Rs.10/- Each) (Not annualised except for the year ended 31st March, 2020) and 31" March, 2021 (4.03)(3.94)(64.56)(15.22)a. Basic (0.01)(0.04)(71.94)(0.20)(73.29)(89.31)

NOTE: The above is an extract of the detailed format of results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The details in prescribed format of the results are available on the websites of the Stock Exchanges For and On behalf of the Board of Directors Jindal Poly Investment and Finance Company Limited

(71.94)

(0.20)

(73.29)

(4.03)

(3.94)

(0.04)

New Delhi June 02, 2021

Company Secretary

b. Diluted

Ghanshyam Dass Singal Managing Director DIN: 00708019

(15.22)

(89.31)

(64.56)

FOODS LTD.

Regd. Office: 8377, Roshanara Road, Delhi-110007 Corporate Office: 1401-1411, 14th Floor, Logix City Center, Sector-32, Noida-201301 (U.P.)
Tel.: 0120-6013232, Fax: 011-23822409
Email: dfm@dfmfoods.com, Website: www.dfmfoods.com NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, June 11, 2021 to consider inter alia the audited financial statements and results for the quarter and year ended March 31, 2021 and to recommend the dividend, if any. For further details, please visit the website of the Company (www.dfmfoods.com) BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. For DFM Foods Ltd.

This Offer is being made pursuant to Regulation 3(1) & 4 of the Securities and Exchange

Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

and subsequent amendments thereto ("SEBI SAST Regulations, 2011") for acquisition

of upto 7,80,260 Equity Shares of Rs.10/- each at an Offer Price of Rs.12/- per equity

share, payable in cash, aggregating to Rs.93,63,120/-(Ninety Three Lakhs Sixty Three

Thousand One Hundred and Twenty Only) representing 26% of the issued, subscribed,

Dated: 3rd June, 2021

SHALIMAR AGENCIES LIMITED

Registered Office: # 4th Floor, Innov8 Co-working, Sreshta Marvel, P. Janardhan Reddy Nagar,

Gachibowli, Hyderabad-500081, Telengana, India

Corporate Identification Number (CIN): L51226TG1981PLC114084

Tel: 040-23395139/9030057374; Email: shalimaragenciesltd@gmail.com; Website: www.shalimaragencieslimited.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Shalimar Agencies Limited (hereinafte

referred to as "Target Company") in relation to the Open Offer ("Offer") made by IT Trailblazers Resources Private

Limited (hereinafter referred to as "Acquirer") alongwith Mr. Venkata Rajani Kumar Vemuri (hereinafter referred to

as "PAC 1"), Mr. Ravulapally Arjun Kumar (hereinafter referred to as "PAC 2") and Mr. Narendra Kotti (hereinafter referred to as "PAC 3"), to the public shareholders of the Target Company under Regulation 3(1) and 4 of Securities

and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended

APL APOLLO TUBES LIMITED CIN: L74899DL1986PLC023443 CIN: L15311DL1993PLC052624

Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 Corp. Office: 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Ghaziabad - 201010 Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com Tel: 0120-4041400 | Fax: 0120-4041444

(0.01)









EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021.

(₹ in Crs. except earning per share data) Ouarter ended Year ended

	Particulars	Quarter ended		rear enaea	
S.No.		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	2586.97	1888.50	8499.75	7723.23
2	EBITDA	219.09	128.19	714.65	499.52
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	177.20	78.61	545.79	296.34
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	177.20	78.61	545.79	296.34
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	134.40	60.79	407.70	256.00
6	Total Comprehensive income for the period	137.07	59.33	408.92	256.60
7	Equity Share Capital	24.98	24.87	24.98	24.87
8	Other Equity	2	2	1669.68	1331.28
	Earnings Per Share (face value of ₹ 2/- not annualised for quarterly figures)				
9	Basic:	9.55	4.57	28.91	19.43
	Diluted	9.52	452	20.01	10.26

Diluted: 19.26 (₹ in Crs.) Brief of Audited Standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021 Ouarter ended Year ended **Particulars** 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 (Unaudited (Unaudited (Audited) (Audited) 1841.08 1382.49 6007.96 5930.81 Income from Operations 69.93 28.71 113.79 Profit/(Loss) Before Tax 205.01 Profit/(Loss) After Tax 54.22 153.78 25.38 115.01 The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com".


New Delhi

Place: Ghaziabad Date: 3 June, 2021

For APL Apollo Tubes Limited

Sanjay Gupta Managing Director

INDIA'S NO.1 STRUCTURAL STEEL TUBE COMPANY



For and on behalf of the Committee of Independent Directors of **Shalimar Agencies Limited**

Place: Hyderabad effect from 1st May'21, all export Date: 3rd June, 2021 financialexp.epa

Authorised Signatory

Siva Prasad Gorthy

जनसत्ता, नई दिल्ली, 4 जून, 2021

सूर्यास्त- 19:16

न्यूनतम- 24.9 डि.से.

27 जून को राजधानी में दस्तक दे सकता है मानसून

नई दिल्ली

राजधना

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 3 जून।

करीब तीन दिन की देरी से मानसून ने गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी है। आंधी व गरज के साथ बारिश शुरू हुई,लेकिन दिल्ली सहित पश्चिमोत्तर भारत में तेज उमस के साथ मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल दिल्ली में 27 जून को मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का आकलन है कि इसमें कुछ देरी भी हो सकती है। इस साल देश में मानसून सामान्य रहने की संभावना है,लेकिन उत्तर के कुछ राज्यों में बारिश कम होगी। मानसून केरल पहुंच चुका है और शुक्रवार से तेज बारिश के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि

अरब सागर के निचले स्तरों में पछुआ हवाएं चल रही हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से पता चलता है कि केरल तट और उससे सटे दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में बादल छाए हुए हैं। दिल्ली व हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से गर्मी से राहत रहने के बाद शुक्रवार के बाद गर्मी में इजाफा हो सकता है।

मौसम वैज्ञानिकों ने चार जुन के बाद मौसम खुश्क रहने के आसार जताए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण पंजाब के पास बने एक 'साइक्लोनिक सकर्लेशन' (चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र) के

की अधिकता होने से उत्तर-पश्चिमी व दक्षिणी हरियाणा के जिलों मे गरज, चमक व धल भरी तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना

पूरे देश में मानसून सामान्य और बेहतर होने की पूरी संभावना है। यदि यह सही होता है तो भारत में लगातार तीसरे साल ये अच्छा मानसून होगा। मौसम विभाग ने इस वर्ष अच्छी बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में मानसून इन तारीखों तक पहुंचेगा। महाराष्ट्र में 11 जून,पश्चिम बंगाल में 12 जून, बिहार और छत्तीसगढ़ में 16 जून, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में 20 जून, उत्तर प्रदेश में 23 जून, हरियाणा में 27 जून, पंजाब में 28 जून और राजस्थान में 29 जून तक मानसून

ईस्ट शालीमार बाग-110088

शालीमार बाग ब्रांच, बीएन-54, भूतल आपका आदर्श बैंकिंग पार्टनर पंजीकृत कार्यालय : अलवे, केरल

स्वर्ण की प्राईवेट विकी हेतु सूचना एतद्द्वारा समस्त संबंधित जन की जानकारी हेतू सूचना दी जाती है कि बैंक की

अधोवर्णित शाखा में निम्नलिखित स्वर्ण ऋण खाते में बंधक रखे गए स्वर्ण आभूषण, जो विमोचन के लिए अतिदेय है तथा बार–बार सूचनाओं के बावजूद नियमित नहीं किये गए है, शाखा में दिनांक 15.06.2021 को बिक्री हेतू रखे

शाखा/स्थान	ilएन-54, भूतल		
खाता नं.	नाम	खाता नं.	नाम
16806400003861		16806100007238	देवेन्द्र जैन
16806600000063	राधे श्याम	16806100007220	देवेन्द्र जैन
16806100006867	0	16806100007279	जतिन जतिन
16806100006883	योगेश कुमार	16806100007253	यतिन शर्मा
16806100006925	राम गोपाल सैनी	16806100007303	जग मोहन लाल
16806100006941	राखी जैन	16806100007337	हैप्पी शर्मा
16806100006966	सुमित कुमार पाण्डे	16806100007329	प्रियंका गुप्ता
16806100006958	दीपक विनैक	16806100005224	शरत पिल्लै
16806100006982	भूपेन्द्र सिह भाटी	16806100007410	अखिल नन्दा
16806100005307	नरेश श्रीवास्तव	16806100007386	संदीप दिक्षित
16806100004292	रवि	16806100004417	साहील शर्मा
16806100004318	C/	16806100007543	कमल
16806100007121	जसविन्दर सिंह	16806100007576	प्रवीण शर्मा
16806100007154	गुरमेश ग्रोवर	16806100007592	अमन गोयल
स्थान: नई दिल्ली, वि	तिथि: 03.06.2021	शास्वा प्रबं	धक, फेडरल बैंक लिमिटेड

पति पर गला रेतने का आरोप, महिला की हालत गंभीर

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 3 जून।

न्यु अशोक नगर थाना क्षेत्र के पुरानी कोंडली इलाके में रहने वाले एक

युवक को पत्नी का चाकू से गला रेतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने महिला के शरीर पर भी चाकु से कई वार किए। महिला को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर

बनी हुई है।

पुलिस के मुताबिक मुताबिक शैलेंद्र (26) और खुशबू (25) किराएं के मकान में पुरानी कोंडली में रहते हैं। दंपति का सात साल का

बेटा और पांच साल की बेटी है। शैलेंद्र नोएडा में एक निजी कंनी में नौकरी करता है। वहीं, पीड़िता खुशबू ने भी 15 दिन पहले एक निजी कंपनी में काम करना शुरू किया था। बताया

> जा रहा है कि बुधवार रात को दंपति के कमरे से चिल्लाने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मकान मालिक जब कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि खुशबू का गला रेता हुआ था। इसके अलावा उसके शरीर पर कई जगह

चाकू के निशान भी थे। मकान मालिक ने आरोपी को मौके पर पकड़ कर शोर मचा दिया। घर के अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे और आरोपी शैलेंद्र को दबोच लिया।

सचना मिलने पर मौके पर पहंची पलिस ने

घायल खुशबू को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती करवाया और शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि कुछ दिनों पूर्व खुशबू खोड़ा कॉलोनी अपने मायके बच्चों की लेकर गई थी। एक दिन शैलेंद्र वहां पहुंचा तो खुशबू उसे वहां नहीं मिली। बुधवार को ही वह मायके से लौट रही थीं। रास्ते में दोनों के बीच झगडा हुआ तो खशब के माता-पिता ने बीच बचाव करा दिया था। माता-पिता बच्चों को लेकर वापस खोड़ा कॉलोनी चले गए थे। इस बीच खुशब् अपने पुरानी कोंडली स्थित घर आ गई। आरोपीं ने रास्ते से चाकू खरीदा और पत्नी पर जाकर हमला कर दिया। खुशबू की हालत फिलहाल बेहद नाजुक बनी हुई है।

भारतीय चिकित्सा एवं 🚁 होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) एन.सी.आर. दिल्ली-201002

Tel: (+91)120-2787014, 2787016, 2783156 Email: dir.pcimh-ayush@gov.in Website: www.pcimh.gov.in

भारतीय चिक्तिसा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग, आयुष मंत्रालय, गाजियाबाद को वरिष्ठ परियोजना परामर्शदाता (टिश् कल्चर) की अनुबंध के आधार पर एक वर्ष हेत् नियुक्ति की आवश्यकता है। विस्तृत जानकारी हेत् आयोग की वैबसाइट "www.pcimh.gov.in" पर दिये गए विज्ञापन का देखें।

प्रभारी निदेशक

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBBUNAL - I, DELHI 4TH FLOOR JEEVAN TARA BUILDING PARLIAMENT STREET

Armol Chopra (Respondent No. 01) S/o Sh Arun Chopra G/9 Americ Copia (responsers Nat. 01) and Shiwan Chopia Gregorian, Marchael Floor, Shubhash Chowk. Laxmi Nagar, Near Jain, Mandir, Delh-110092. ALSO AT Anmol Chopia Sto Sh. Arun Chopia, Flat No. 401. 4TH Floor, Kumar Imperial. Greens, Block-K1, Plot No. GH 01B, Sector-16, Nolda-201307. N., Poli No. GH (18, Sectiol -16, Norda-201307. 2. Sudesh Chopra (Respondert No. 02) Sio Sh. Arun Chopra G-9. Block-G, 3Rd Floor, Suthash Chowk, Laomi Nacar, Near Jain Mandir, Deihi-11008Z. ALSO AT Sudesh Chopra Sio. Sh. Arun Chopra Flat No. 401, 4TH Floor, Kumar Imperal Greens, Block-Chops Fish No. 401, 417 Floor, Numar Imperial Greens, bloos-Kt, Plot No. GH 01B, Sector-16, Noida-201307. Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of Rs. 35,58,287/- (Rupees Thirty: Five Lacs Fifty Eight Thousand Two Hundred Eighty Seven Only.) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way.

Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld. Registrar on 16.06.2021 at 10.30 A.M. (for further details kindly visit DRT website www.wetrbunal.gov/in-Phone Number. 001-23748473.

Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and desided in the property of the case will be heard and

Due to ongoing Pandemic situation, all the matters will be take Meeting ID and Password for the next date of hearing qua ases will be taken by RegistranRecovery Officer-ti' and Recovery Officer-til shall be available one day prior to the next tate at ORT Official Portal i.e. drt.gov.in under the Public Notice ii) In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 0111-23748473.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this 05th April of

p through Video Conferencing and for that purpose: i) All the Advocates/Lifigents shall download the Cisco Webex

By Order of the Tribunal For Registrar

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

जन-जन के लिए भण्डारण

केंद्रीय भंडारण निगम अनुसूची 'ए' मिनी रत्न श्रेणी-1 का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। हमारा उद्देश्य सामाजिक दायित्व और पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत प्रभावी, मूल्य वर्धित, एकीकृत वेअरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स



वेअरहाउसिंग टूल्स

वेअरहाउसिंग प्रचालन और परिसर की सरक्षा के लिए वेअरहाउस प्रबंधन निगरानी प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक लॉरी वेबिज (ईएलडब्ल्यूबी) और एकीकरण, एकीकृत चेक पोस्ट/ अंतर्देशीय कंटेनर डिपो / कंटेनर फ्रेंट स्टेशनों (आईसीपी/आईसीडी सीएफएस), रेक प्रबंधन प्रणाली शिकायत प्रबंधन (सीएमपी) के लिए

ऑनलाइन पोर्टल।

एचआरएमएस, वर्चअल हायरिंग पोर्टल (वीएचपी), करियर पोर्टल, ट्र मैनेजमेंट, ऑनलाइन मल्यांकन शिकायत निवारण पोर्टल (जीआरपी), उपस्थिति ई-लर्निंग, डिजिटल पृछताछ

वित्त टुल्स (फाइनेन्स टुल्स) प्रत्येक वित्तीय लेन-देन को लिए प्रबंधकीय जानकारी को परिवर्तित करने हेतु वित्त – टैली इंटीग्रेशन, सेवानिवत्ति (पीआरएमबीपी), बिल पेशन, नकद प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) आर

ई-ऑफिस. डायनेमिक कॉपीरेट वेबसाइट, सभी ट्रल्स के ई-पोर्टल, सतर्कता सूचना प्रणाली (वीआईएस), विजीटर मैनेजमेंट सिस्टम (वीएमएस), केपीए डेशबोर्ड, पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस), डेशबोर्ड, ई-निविदा, ई-नीलामी, और स्वचालित

कार्यालय ट्ल्स (ऑफिस ट्ल्स)

विलक की दूरी पर है। निदेशक (वित्त)

ऑनलाइन काम्प्रीहेन्सिव डेटा

और फाइल प्रबंधन केवल एक

कारपोरेट ऑफिसः 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज़खास, नई दिल्ली-110016 फोनः 011-26566107-276 / 41407942, 46523028. वेबसाइटः www.cewacor.nic.in. इमेलः warehouse@nic.in

आंघ्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। असम। बिहार। छत्तीसगढ़। दिल्ली। गोवा। गुजरात। हरियाणा। हिमाचल प्रदेश। ज्ञारखंड। कर्नाटक। केरल। मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र। मणिपुर। नागालँड। ओडिशा। पंजाब। राजस्थान। तमिलनाडु। तेलंगाना । त्रिपुरा । उत्तराखंड । उत्तर प्रदेश । पश्चिम बंगाल

ई–इन्वोइसिंग।

केनरा बैंक Canara Bank 🖘 सिंडिकेट Syndicate

शिमला मेन शाखा : 20, मिडल बाजार, शिमला हिमाचल प्रदेश-171001

माँग सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,

2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना एतद्वारा सचना दी जाती है कि निम्नलिखित कर्जदार(रों)/जमानती(यों) ने उनके द्वारा बैंक से ली गयी ऋण सुविधाओं के मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान में चुक है औ

ı	कथित सुविधाएं 28.09.2020 को नॉन-पर्फार्मिंग आस्तियों के रूप में परिवर्तित हो गयी हैं। वित्तीय आस्तियों के	के प्रतिभूतिकरण एवं प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम
ı	2002 की धारा 13(2) के तहत कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा उनके अन्तिम ज्ञात	त पतों पर सूचनाएं भेजी गयी थीं। किन्तु सूचनाएं अनसर्व्ड वापर
ı	कर दी गर्यी और अधिकृत प्राधिकारी के पास कारण हैं कि कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को सूचना की सर्विस	ं की अवहेलना कर रहे हैं, अतः उन्हें इसके विषय में सार्वजनिक
	सूचना द्वारा अवगत कराया जा रहा है।	, , ,
ı	कर्जदार/जमानती का नाम सम्पत्तियों का विवरण/प्रवर्तित की जाने	सूचना की तिथि एनपीए की तिथि बकाया राशि
ı		

तक) चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके ट्रस्टियों ऋण; स्वीकृति की तिथि : 18.04.2011; राशि : रु. 45,00,00,000/-. क्र.सं. : 2; ऋण आकस्मिक व्यय एवं के माध्यम से (i) श्री राजेश सं. : 1964773001718; ऋण की प्रकृति/सीमा : सावधि ऋण; स्वीकृति की तिथि लागतों सहित गोयल, (ii) श्री गर्वित गोयल 06.08.2013; राशि : रु. 24,00,00,000/-. क्र.सं. : 3; ऋण सं. : 1964773001728; 31.03.2021 तक र 🛮 (iii) श्री प्रमोद गोयल, (iv) ऋण की प्रकृति/सीमा : सावधि ऋण; स्वीकृति की तिथि : 17.10.2017; राशि : रु 39,21,50,736.27

सुश्री कुसुम लता (v) सुश्री मीनू 8,00,00,000/-. क्र.सं. : 4; ऋण सं. : 1964261001175; ऋण की प्रकृति/सीमा

गोयल, (vi) सुश्री प्रियंका ओसीसी लिमिटेड; स्वीकृति की तिथि : 20.04.2017; राशि : रु. 5,00,00,000/-. गोयल, (vii) सुश्री शोभिता अनुसूची 'ख': अचल/चल: (i) निम्नलिखित विवरणों वाली सम्पत्ति का बंधक: (ii) गोयल, निवासी : 118, जागृति खाता एवं खतौनी सं. 34/127 मिन, खसरा नं. 871, माप 01-55-11 हेक्टेयर, विक्रय एन्कलेव, नई दिल्ली-110092 विलेख सं. 1679/2010 दिनांक 29.09.2010 के माध्यम से, (iii) खाता एवं खतौनी जमानती : (i) श्री राजेश गोयल, सं. 27/110, खसरा नं. 879, माप 00- 26-14, खाता एवं खतौनी सं. 33/126. निवासी : 118, जागृति एन्कलेव, खसरा नं. 824,877,880,881,883,886 भूमि माप 01- 16-70 हेक्टेयर जो कुल भूमि नई दिल्ली-110092 (ii) श्री माप 00-45-88 का 4/5 है; खाता एवं खतौनी सं. 34/127 मिन, खसरा नं. 821 गर्वित गोयल, निवासी : 118, 823, 833, 869, 870, 873 माप 05-70-48; खतौनी सं. 35/128,129 खसरा नं जागृति एन्कलेव, नई दिल्ली- 830,810,829,889, भूमि माप 00-76-70 हेक्टेयर जो कुल भूमि माप 00-85-23 क 110092 (iii) श्री प्रमोद गोयल, 9/10 भाग है; खतौनी सं. 36 मिन /130,131, खसरा नं. 836, 837, 842, 847, 793 निवासी : 118, जागृति एन्कलेव, 798, 799, 809, 811, 815, 816, 834, 835, 849, 852, 854, 861 तथा 865, भूमि नई दिल्ली-110092 (iv) सुश्री माप 01-40-56 हेक्टेयर जो कुल भूमि माप 01-75-70 का 8/10 भाग है, खाता एव कुसुम लता गोयल, निवासी : खतौनी सं. 49 मिन 164, खसरा नं. 876, 878, 882 तथा 885, माप 01-44-95 118, जागृति एन्कलेव, नई विक्रय विलेख सं. 1683/2010 दिनांक 30.09.2010 के माध्यम से, (iv) खाता एवं दिल्ली-110092 (v) सुश्री मीनू खतौनी सं. 78/122, खसरा नं. 831,838,858, कित्ता 3, माप 00-16-88 हेक्टेयर. गोयल, निवासी : 118, जागृति विक्रय विलेख सं. 1680/2010 दिनांक 29.09.2010 के माध्यम से, (v) खाता एव एन्कलेव, नई दिल्ली-110092 खतौनी सं. 35/128, 129 खसरा नं. 830, 810, 829, 889, भूमि माप 0-08-52

(vi) सुश्री प्रियंका गोयल, हेक्टेयर जो कुल भूमि माप 00-85-23 का 1/10 भाग है, खाता एवं खतौनी सं निवासी : 118, जागृति एन्कलेव, 33/126, खसरा नं. 824, 877, 880, 881, 883, 886 भूमि माप 00-29-17 हेक्टेयर नई दिल्ली-110092 (vii) सुश्री जो कुल भूमि माप 01-45-88 का 1/5 भाग है, खाता एवं खतौनी सं. 36 मिन शोभिता गोयल, निवासी : 118, /130131, खसरा नं. 836, 837, 842, 847, 793, 798, 799, 809, 811, 815, जागृति एन्कलेव, नई दिल्ली- 816, 834, 835, 849, 852, 854, 861 तथा 865, भूमि माप 00-35-14 हेक्टेयर जो कल भिम माप 01-75-70 का 1/5 भाग है, विक्रय विलेख सं. 1681/2010 दिनांक 29.09.2010 के माध्यम से, (vi) खाता एवं खतौनी सं. 53 मिन/70 खसरा नं. 13 16, 17, 18, 19, 20, 754, 756, 758, 911/761, कित्ता 10, माप 01 -95-85 हेक्टेयर, विक्रय विलेख सं. 1678/2010 दिनांक 29.09.2010 के माध्यम से, खाता एव खतौनी सं. 55 मिन 173, खसरा नं. 792, 794, 802, 803, 804, 805, 813, 814, 817, 853, 855, 856, 859, 862, 866 कित्ता 15, कुल भूमि माप 02-10-03 हेक्टेयर, कल भिम 02-10-03 हेक्टेयर में से, भिम माप 00-34-48 हेक्टेयर विक्रय विलेख सं. 1694/2010 दिनांक 05.10.2010 में निर्मित, (i) भूमि माप 00-15-66 हेक्टेयर जो खसरा नं. 862 में है (ii) भिम माप 00-03-80 हेक्टेयर जो खसरा नं 856/1 में है तथा भूमि माप 00-07-51 हेक्टेयर जो खसरा नं. 866/1 में है। स्वामित्व धारक का नाम : मैसर्स एपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट। अनुसूची 'ग' : क्र.सं. 1; ऋण सं. 1964773001715; ऋण की प्रकृति : सावधि ऋण; तिथि तक ब्याज सहित देयता : रु 10,64,21,107.85 (30.03.2021 से ब्याज छोड़कर); ब्याज की दर : 14.4%. क्र.सं : 2; ऋण सं. : 1964773001718; ऋण की प्रकृति : सावधि ऋण; तिथि तक ब्याज सिंहत देयता : रु. 18,85,30,144.68 (28.02.2021 से ब्याज छोड़कर); ब्याज की दर : 14.4%. क्र.सं. : 3; ऋण सं. : 1964773001728; ऋण की प्रकृति : सावधि ऋण; तिथि तक ब्याज सिंहत देयता : रु. 4,77,41,847.31 (30.03.2021 से ब्याज

छोडकर): ब्याज की दर: 14.05%, क्र.सं. : 4: ऋण सं. : 1964261001175: ऋण

की प्रकृति : ओसीसी लिमिटेड; तिथि तक ब्याज सहित देयता : रु. 4,94,57,636.43

(28.02.2021 से ब्याज छोड़कर); ब्याज की दर : 15.90%.

उपर्युक्त कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि अदा करने का परामर्श दिया जाता है जिसमें असफल् रहने पर हम वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सभी या किसी अधिकारों का उपयोग करेंगे इसके अतिरिक्त कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को हमारी पूर्व सहमित के बिना उपर्युक्त किसी भी प्रतिभूत आस्तियों को किसी भी रीति से संव्यवहार करने से निषिद्ध किया जात है। यह विषयगत अधिनियम तथा/अथवा किसी अन्य लागू कानून के तहत हमें उपलब्ध किसी अन्य अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना है। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में आपका ध्यान सरफैसी अधिनियम की धारा 13(13) की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। साथ ही ओपको धारा 13(13) के सन्दर्भ में सूचना दी जाती है कि कर्जदार∕जमानती प्रतिभूत लेनदार की लिखित सहमित प्राप्त किये बिना यहां अनुसूची 'ख' में वर्णित कथित प्रतिभूत आस्तियों का हस्तान्तरण बिक्री, पट्टे या अन्यथा रीति से नहीं करेंगे। यह पुनः सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम में प्रावधानित इस विधिक इंजक्शन/निषेध का कोई उल्लंघन एक अपराध है और यदि किसी कारणवश यदि सामान्य व्यवसाय में प्रतिभूत आइस्तयों की बिक्री या पट्टा किया जाता है तो वसूली गयी बिक्री कार्यवाही या आय

प्रतिभृत लेनदार के पास जमा करनी होगी। इस सम्बन्ध में आपको इस प्रकार की वसुली/आय का उचित खाता प्रस्तुत करना होगा।

तिथि : 03.06.2021 स्थान : शिमला

अधिकृत प्राधिकारी

पूर्णबंदी में मिली ढील के बाद भी कारखाने खोलने में हो रही है दिक्कत

निर्भय कुमार पांडेय नई दिल्ली, 3 जून।

दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद पूर्णबंदी में थोडी ढील देने की घोषणा सोमवार को को थी। अब सरकार की ओर से कारखाने खोलने और भवन निर्माण स्थल पर काम करने की इजाजत दी गई है, लेकिन दिशानिर्देशों को लेकर कारोबारी और छोटे कारखाने चलाने वाले उद्योगपति असमंजस की स्थिति में है।

ओखला चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि सरकार ने जो दिशानिर्देश दिए हैं, उसमें कई बिंदू साफ नहीं हैं। इस कारण उन्हें कारखाने खोलने में दिक्कत हो रही है। कच्चा माल कारखाना तक कैसे पहुंचेगा।

कालाबाजारी की

रोकथाम के लिए

'नापतौल टीम' तैनात

कोरोनाकाल में आम जनता

को दवाओं की कालाबाजारी से

बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने

नापतौल विभाग की टीमें तैनात की है। ये टीम बाजार में अधिक

शुल्क, बेकरी के सामान,

चिकित्सा उपकरण और अन्य

आवश्यक वस्तुओं पर नजर रखने

दिल्ली सरकार खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के

मंत्री इमरान हुसैन की अगुआई में एक बैठक हुई। जहां पर विभाग

के कामकाज की समीक्षा की गई। मंत्री ने सहायक नियंत्रक, जिला

अधिकारियों व जिला निरीक्षकों को अपने कार्य क्षेत्र का नियमित

दौरा करने और यह सनिश्चित

करने का निर्देश दिया कि दिल्ली

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(डीडीएमए) के आदेशों के

अनुसार खोले गए प्रतिष्ठानों में

सचिव (एलएम) और नियंत्रक

(एलएम) को निर्देश दिया कि

जब भी पेट्रोल पंप डीलरों से

अनुरोध प्राप्त होता है तो विभिन्न

पेट्रोल पंपों के नोजल पर मुहर

लगाने या फिर जांच करने के

लिए डीडीएमए / नापतौल

अधिनियम (लीगल मेट्रोलॉजी

एक्ट) के निर्देशों के तहत फील्ड

स्टाफ को निर्देश जारी करें। इस

मामले में यदि कोई भी लापरवाही

होगी तो उसके खिलाफ सख्त

उन्होंने नापतौल विभाग के

नियमों का सख्ती से पालन हो।

इस मामले में गुरुवार को

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 3 जून।

का काम करेंगी।

नहीं हैं। साथ ही आसपास के बाजार बंद पड़े हैं। ऐसे में जरूरत के सामान नहीं मिल पा रहे। इस कारण कारखानों को खोलने में दिक्कत हो रही है।

लागू किए जाने के बाद कोई कैसे कारखाना चालु कर सकता है।

इसको लेकर भी दिशानिर्देश साफ

अखिला चैंबर आफ कामसे के प्रमुख अरुण पोपली का कहना है कि कारखाना में काम करने वाले मजदुरों के लिए ई-पास की व्यवस्था की गई है पर ई-पास बनाने को लेकर जो दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, वह कारोबारियों पर बोझ डालने जैसा है। नियम कहता है कि यदि कोई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो जाता है तो कारखाने के मालिक की जिम्मेदारी होगी। उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार के नियम

| स्थान: नई दिल्ली, तिथि: 03.06.2021



(₹ in Crs. except earning per share data)

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023443

Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 Corp. Office: 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Ghaziabad - 201010 Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com Tel: 0120-4041400 | Fax: 0120-4041444









EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

	Particulars	Quarter ended		Year ended	
S.No.		31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	2586.97	1888.50	8499.75	7723.23
2	EBITDA	219.09	128.19	714.65	499.52
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	177.20	78.61	545.79	296.34
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	177.20	78.61	545.79	296.34
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	134.40	60.79	407.70	256.00
6	Total Comprehensive income for the period	137.07	59.33	408.92	256.60
7	Equity Share Capital	24.98	24.87	24.98	24.87
8	Other Equity	ā	=	1669.68	1331.28
	Earnings Per Share (face value of ₹ 2/- not annualised for quarterly figures)	10			0
9	Basic:	9.55	4.57	28.91	19.43
	Diluted:	9.52	4.53	28.81	19.26

Diluted (₹ in Crs.) Brief of Audited Standalone Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2021 Ouarter ended Year ended Particulars 31.03.2020 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2021 (Audited) (Audited) Unaudited Unaudited) 1841.08 1382.49 6007.96 5930.81 Income from Operations Profit/(Loss) Before Tax 69.93 28.71 205.01 113.79 Profit/(Loss) After Tax 54.22 25.38 153.78 115.01 The above is an extract of the detailed format of audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com". Place: Ghaziabad For APL Apollo Tubes Limited Date: 3 June, 2021 Sanjay Gupta Managing Director INDIA'S NO.1

STRUCTURAL STEEL

TUBE COMPANY

कार्रवाई की जाएगी। 107 चिकित्सकों के मौतं मामले की

नई दिल्ली, 3 जून। देशभर में कोरोना विषाणु संक्रमण से सबसे अधिक चिकित्सकों की मौत दिल्ली में हुई है। इस मामले में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले में केंद्र सरकार से सीधा हस्तक्षेप कर मामले की सीबीआइ से जांच करवाने की मांग की है। देशभर में 513 चिकित्सकों की मौत हुई है। इसमें से सबसे अधिक मौत दिल्ली में हुई है।

हो जांच: गुप्ता

(जसं)

www.readwhere.com

कारण पिछले तीन दिनों से मौसम में लगातार बदलाव तथा तेज धूलभरी हवाओं के साथ राज्य में कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान के पास बन रहे एक और 'साइक्लोनिक केरल में बारिश में वृद्धि हुई है और दक्षिण सकर्लेशन' के कारण तथा वातावरण में नमी दस्तक दे देगा।